

प्रेस दिनांक – 14.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की अवस्था में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

जनपद में महिला/बालिका संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेंड्स कालोनी पुलिस द्वारा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की अवस्था में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्रांतर्गत दुष्कर्म पीड़ित महिला द्वारा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर आकर सूचना दी गई वह एक किराए के मकान में रहती है तथा मकान मालिक के पुत्र कन्हैया शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी अशोक नगर थाना फ्रेंड्स कालोनी जनपद इटावा द्वारा दिनांक 15-10- 2019 को कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दिया था। जिसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई जिसके उपरांत मकान मालिक के पुत्र द्वारा बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी अश्लील फोटो खींच कर उसे ब्लैकमेल कर कई बार पैसों की मांग की गई । उक्त मकान मालिक के पुत्र द्वारा पीड़िता को उसके अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दिनांक 22-05-2021 को बलात्कार किया गया था । जिस के संबंध में दिनांक 29-05-2021 को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर मु0अ0सं0 198/21 धारा 376,506,328 भादवि व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट एवं 66 आईटी एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व मे थाना फ्रेंड्स कालोनी से पुलिस टीम का गठन किया गया था । पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार कार्यवाही करते हुए दबिश दी जा रही थी ।

इसी क्रम में आज दिनांक 14.06.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार दुष्कर्मी को भरथना ओवर ब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कन्हैया शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी अशोक नगर थाना फ्रेंड्स कालोनी जनपद इटावा  
पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 198/21 धारा 376,506,328 भादवि व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट एवं 66 आईटी एक्ट थाना फ्रेंड्स कालोनी जनपद इटावा

पुलिस टीम- श्री उपेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना फ्रेण्ड्स कालोनी , उ०नि० इमरान फरीद, उ०नि० श्री सन्त सिंह, का० अमरदीप, का० मो० जावेद

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इटावा